

ALL INDIA TRADE TEST - 2024 FOR CRAFTSMEN
TRAINING SCHEME (CTS)
Trade Name: Refrigeration & Air Conditioning Technician
Year: 1st Year


Exam Date :

Exam Time :


Note:

1. Tick the correct option out of four alternatives provided
2. All questions carry equal marks (2 Marks each)
3. There is no negative marking

Sr. No.	Q ID	Question Body and Alternatives	Marks	Negative Marks
Trade Theory				
1	1	<p>What is the formula for calculating diameter of a rivet? रिवेट के व्यास की गणना का सूत्र क्या है?</p> <p>A1 : $D = (21/2 \text{ to } 3) \times T$ $D = (21/2 \text{ to } 3) \times T$</p> <p>A2 : $D = (22/2 \text{ to } 3) \times T$ $D = (22/2 \text{ to } 3) \times T$</p> <p>A3 : $D = (21/2 \text{ to } 2) \times T$ $D = (21/2 \text{ to } 2) \times T$</p> <p>A4 : $D = (22/1 \text{ to } 3) \times T$ $D = (22/1 \text{ to } 3) \times T$</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
2	2	<p>Which extinguishes the fire on electrical equipment? विद्युत उपकरणों में लगी आग को कौन बुझाता है?</p> <p>A1 : Oil Oil</p> <p>A2 : Foam Foam</p> <p>A3 : Water Water</p> <p>A4 : CO₂ CO₂</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
3	3	<p>How many types of Workshop safety are there? वर्कशॉप सुरक्षा कितने प्रकार की होती है?</p> <p>A1 : 2 2</p> <p>A2 : 3 3</p> <p>A3 : 4 4</p> <p>A4 : 5 5</p>	2.0	0.00
Trade Theory				

4	4	<p>What is used to remove drills and sockets from drilling machine? ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल और सॉकेट हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?</p> <p>A1 : Vice वाइस</p> <p>A2 : Clamps क्लैप्</p> <p>A3 : Pinion and key पिनियन और की</p> <p>A4 : Drift ड्रिफ्ट</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
5	5	<p>What is the name of instrument used to check high resistance? उच्च प्रतिरोध की जांच करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है?</p>  <p>A1 : Megger मेगर</p> <p>A2 : Ammeter एमीटर</p> <p>A3 : Voltmeter वोल्टमीटर</p> <p>A4 : Wattmeter वाटमीटर</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
6	6	<p>What is the unit of electric current? विद्युत धारा की इकाई क्या है?</p> <p>A1 : Ampere Ampere</p> <p>A2 : Farad Farad</p> <p>A3 : Ohm Ohm</p> <p>A4 : Volt Volt</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
7	7	<p>Which tool is used for skinning the insulation of cables and cleaning the wire surface? केबल के इन्सुलेशन को साफ करने और तार की सतह को साफ करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?</p> <p>A1 : Hacksaw हैक्सॉ</p> <p>A2 : Firmer chisel Firmer chisel</p>	2.0	0.00


		फिर्मर चिज़ल A3 : Electrician's knife इलेक्ट्रीशियन नाइफ A4 : Combination pliers कॉम्बिनेशन प्लायर्स		
Trade Theory				
8	8	Which power supply has the fixed polarity? किस बिजली की आपूर्ति में निश्चित पोलारिटी होती है? A1 : Direct current डायरेक्ट करंट A2 : Signal voltage सिग्नल वोल्टेज A3 : Signal ripples सिग्नल रिपल्स A4 : Alternating current प्रत्यावर्ती धारा	2.0	0.00
Trade Theory				
9	9	How electrons flow in a battery circuit? बैटरी सर्किट में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित होते हैं? A1 : Phase to earth फेस टू अर्थ A2 : Phase to neutral फेज़ टू न्यूट्रल A3 : Positive to negative polarity पॉजिटिव टू नेगेटिव पोलारिटी A4 : Negative polarity to positive polarity नेगेटिव पोलारिटी टू पॉजिटिव पोलारिटी	2.0	0.00
Trade Theory				
10	10	Which property limits the flow of electrons in an electrical circuit? विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का कौन सी गुण सीमित रहता है? A1 : Voltage वोल्टेज A2 : Current करंट A3 : Resistance रेजिस्टेंस A4 : Conductance कंडक्टेंस	2.0	0.00
Trade Theory				
11	11	What is the name of accessory marked as X used with drilling machine? ड्रिलिंग मशीन के साथ उपयोग किए जाने वाले एक्सेसरी X का नाम क्या है?	2.0	0.00



- A1
: Handle
हैंडल
- A2
: Drill bit
ड्रिल बिट
- A3
: Chuck key
चक की
- A4
: Trigger switch
ट्रिगर स्विच

Trade Theory


12 12 Which component these symbols represent? यह चिन्ह किस घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं? 2.0 0.00




- A1
: Motor
मोटर
- A2
: Relay
रिले
- A3
: Capacitor
केपेसिटर
- A4
: Overload protector
ओवरलोड प्रोटेक्टर


Trade Theory

13 13 What is the name of part marked as X in a gimlet? गिमलेट में X के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है? 2.0 0.00



- A1
: Shank
शैंक

		A2 Flute : फ्लूट A3 Handle : हैंडल A4 Feed screw : फ़ीड स्कू		
Trade Theory				
14	14	Which meter indicates the true power directly in an electrical circuit? कौन सा मीटर सीधे विद्युत सर्किट में वास्तविक शक्ति को इंगित करता है? A1 Ammeter : एमीटर A2 Ohm meter : ओह्म मीटर A3 Watt meter : वाट मीटर A4 Volt meter : वोल्ट मीटर	2.0	0.00
Trade Theory				
15	15	What is the name of component? घटक का नाम क्या है?  A1 Transistor : ट्रांजिस्टर A2 Capacitor : कैपेसिटर A3 Inductor : इंडक्टर A4 Resistor : रेसिस्टर	2.0	0.00
Trade Theory				
16	16	What is the name of component used in electronic circuit? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले घटक का नाम क्या है?	2.0	0.00



EL163021

A1
:

Diode

डायोड

A2
:

Capacitor

कैपेसिटर

A3
:

Transistor

ट्रांजिस्टर

A4
:

Resistance

रेजिस्टेंस

Trade Theory

17


17

What is the name of component?

2.0

0.00

घटक का नाम क्या है?



EL200420

A1
:

SCR

SCR

A2
:

FET

FET

A3
:

DIAC

DIAC

A4
:

TRIAC

TRIAC

Trade Theory

18


18

What is the name of component symbolized?

2.0

0.00

प्रतीक किये गए घटक का नाम क्या है?



EL200425

A1
:

SCR



SCR



A2
:

DIAC


DIAC


		A3 Capacitor : कैपेसिटर A4 Transistor : ट्रांजिस्टर		
Trade Theory				
19	19	How the ability of a conductor is called if it induces the voltage in the same conductor? यदि कंडक्टर को उसी कंडक्टर में वोल्टेज के लिए प्रेरित किया जाता है, तो उसे कैसे कहा जाता है? A1 Self inductance : सेल्फ इंडक्टेंस A2 Conductance : इंडक्टेंस A3 Capacitance : कैपेसिटेंस A4 Resistance : रेजिस्टेंस	2.0	0.00
Trade Theory				
20	20	Which semiconductor material is used to make diodes? डायोड बनाने के लिए किस सेमी कंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है? A1 Steel : इस्पात A2 Silicon : सिलिकॉन A3 Copper : तांबा A4 Aluminium : एल्युमीनियम	2.0	0.00
Trade Theory				
21	21	Which type of diode is used for communication circuits? संचार सर्किट के लिए किस प्रकार के डायोड का उपयोग किया जाता है? A1 Signal diode : सिग्नल डायोड A2 Zener diode : जेनर डायोड A3 Rectifier diode : रेक्टिफायर डायोड A4 Switching diode : स्विचिंग डायोड	2.0	0.00
Trade Theory				
22	22	Which component is used as a switching device in electronic circuit? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस घटक का उपयोग किया जाता है? A1 SCR : SCR A2 Diode : डायोड A3 Capacitor : कैपेसिटर	2.0	0.00

		कैपेसिटर A4 : Zener diode ज़ेनर डायोड		
Trade Theory				
23	23	What is the name of active component used in electronic circuit? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले सक्रिय घटक का नाम क्या है? 	2.0	0.00
		A1 : Transistor ट्रांजिस्टर A2 : TRIAC TRIAC A3 : DIAC DIAC A4 : SCR SCR		
Trade Theory				
24	24	Which material is used for making zener diode? जेनर डायोड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? A1 : Lead लेड A2 : Silicon सिलिकॉन A3 : Titanium टाइटेनियम A4 : Platinum प्लेटिनम	2.0	0.00
Trade Theory				
25	25	What is the name of component used in electronic circuit? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले घटक का नाम क्या है? 	2.0	0.00
		A1 : Zener diode ज़ेनर डायोड A2 : Vacuum tube वैक्यूम-ट्यूब A3 : Transistor ट्रांजिस्टर		



		A4 : Voltage regulator वोल्टेज रेगुलेटर		
Trade Theory				
26	26	<p>What is the use of component? घटक का उपयोग क्या है?</p>  <p>A1 Limits current करंट को सीमित करता है</p> <p>A2 Regulates voltage वोल्टेज को नियंत्रित करता है</p> <p>A3 Matches impedance प्रतिबाधा से मेल खाता है</p> <p>A4 Increases reactance प्रतिक्रिया को बढ़ाता है</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
27	27	<p>Which application uses the digital ICs? डिजिटल IC का उपयोग कौन से अनुप्रयोग में होता है?</p> <p>A1 Amplifier एम्पलीफायर</p> <p>A2 Logic gates लॉजिक गेट्स</p> <p>A3 Tuned circuits ट्यून्ड सर्किट</p> <p>A4 Voltage regulator वोल्टेज रेगुलेटर</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
28	28	<p>What is the value of resistance as per colour codes? रंग कोड के अनुसार रेजिस्टेंस का मान क्या है?</p>  <p>A1 $2\text{ K}\Omega \pm 5\%$</p> <p>A2 $3\text{ K}\Omega \pm 10\%$</p> <p>A3 $4\text{ K}\Omega \pm 15\%$</p>	2.0	0.00


		<p>4 K3 $\Omega \pm 15\%$</p> <p>A4 : 5 K3 $\Omega \pm 20\%$</p> <p>5 K3 $\Omega \pm 20\%$</p>		
Trade Theory				
29	29	<p>What is the unit of electrical energy? विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है?</p> <p>A1 : Volt वोल्ट</p> <p>A2 : Watt वाट</p> <p>A3 : Ampere एम्पेयर</p> <p>A4 : Kilo watt hour किलो वाट ऑवर</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
30	30	<p>How the batteries are connected in the circuit to increase the output current? आउटपुट को बढ़ाने के लिए बैटरी को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है?</p> <div data-bbox="253 817 845 1126" data-label="Diagram"> </div> <p>A1 : Series श्रृंखला में</p> <p>A2 : Parallel समानांतर</p> <p>A3 : Zig zag ज़िग जैग</p> <p>A4 : Alternate poles वैकल्पिक पोल</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
31	31	<p>What is the supply voltage if a current of 2 ampere flows through 10 ohm resistor in a circuit? यदि एक सर्किट में 10 Ohm रेसिस्टर के माध्यम से 2 Amp का करंट प्रवाह होता है तो सप्लाय वोल्टेज क्या होता है?</p> <p>A1 : 20 Volt 20 Volt</p> <p>A2 : 45 Volt 45 Volt</p> <p>A3 : 55 Volt 55 Volt</p> <p>A4 : 65 Volt 65 Volt</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
32	32	<p>Which law relates to voltage, current and resistance in an electrical circuit? विद्युत सर्किट में वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध से संबंधित कौन सा लॉ होता है?</p>	2.0	0.00


		<p>A1 : Ohm's law ओम का नियम</p> <p>A2 : Lenz's law लेनज़ का नियम</p> <p>A3 : Newton's law न्यूटन का नियम</p> <p>A4 : Faraday's law फैराडे का नियम</p>		
Trade Theory				
33	33	<p>What is the load resistance in an electrical circuit, if current, $I = 2$ amp and supply, $V = 10$ volt? विद्युत सर्किट में लोड प्रतिरोध क्या है, यदि कोरेंट, $I = 2$ amp और सप्लाई, $V = 10$ Volt हो?</p> <p>A1 : 2 ohms 2 ohms</p> <p>A2 : 3 ohms 3 ohms</p> <p>A3 : 4 ohms 4 ohms</p> <p>A4 : 5 ohms 5 ohms</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
34	34	<p>What are the passive components used in electronic circuits? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले निष्क्रिय घटक क्या हैं?</p> <p>A1 : Resistors, capacitors and inductors रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स</p> <p>A2 : Transformers and semiconductors ट्रांसफॉर्मर और सेमी कंडक्टर्स</p> <p>A3 : Semi conductors and transistors सेमी कंडक्टर्स और ट्रांजिस्टर्स</p> <p>A4 : Transistors, diodes and SCRs ट्रांजिस्टर्स, डायोड और SCRs</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
35	35	<p>What is the name of component? घटक का नाम क्या है?</p>  <p>A1 : Resistor रेसिस्टर</p> <p>A2 : Inductor इंडक्टर</p> <p>A3 : Capacitor कैपेसिटर</p>	2.0	0.00

		A4 : Diode डायोड		
Trade Theory				
36	36	<p>What are the active components used in electronic circuits? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले सक्रिय घटक क्या हैं?</p> <p>A1 : Transformers and inductors ट्रांसफॉर्मर और इंडक्टर्स</p> <p>A2 : Transistors, diodes and SCRs ट्रांजिस्टर, डायोड और SCRs</p> <p>A3 : Semi conductors and transformers सेमी कंडक्टर्स और ट्रांसफार्मर</p> <p>A4 : Resistors, capacitors and inductors रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
37	37	<p>Which operation is in progress with capacitor? कैपेसिटर के साथ कौन सा ऑपरेशन चल रहा है?</p>  <p>A1 : Testing टेस्टिंग</p> <p>A2 : Cleaning क्लीनिंग</p> <p>A3 : Charging चार्जिंग</p> <p>A4 : Discharging डिसचार्जिंग</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
38	38	<p>Which type of material resists the flow of electrons? किस प्रकार की मटेरियल इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करती है?</p> <p>A1 : Conductor कंडक्टर</p> <p>A2 : Insulator इंसुलेटर</p> <p>A3 : Semi conductor सेमि कंडक्टर</p> <p>A4 : Transistor ट्रांजिस्टर</p>	2.0	0.00
Workshop Calculation Science				
39	39	Which metal contains iron as a major content?	2.0	0.00


		<p>इनमे से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है?</p> <p>A1 : Brass metal पीतल धातु</p> <p>A2 : Bronze metal ब्रॉज धातु</p> <p>A3 : Zinc ज़िंक</p> <p>A4 : Ferrous metal लोह धातु</p>		
Workshop Calculation Science				
40	40	<p>Which property of metal has its power of returning to its original shape after the applied force is released? धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्ववस्था में आने की क्षमता रखता है?</p> <p>A1 : Malleability आघातवर्धनीयता</p> <p>A2 : Tenacity टढ़ता</p> <p>A3 : Elasticity प्रत्यास्तथा</p> <p>A4 : Plasticity सुघट्यता</p>	2.0	0.00
Workshop Calculation Science				
41	41	<p>Which insulating material is used for making switches? स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है?</p> <p>A1 : Porcelain पोर्सिलेन</p> <p>A2 : P.V.C P.V.C</p> <p>A3 : Bakelite बैक्लाइट</p> <p>A4 : Ebonite इबोनाइट</p>	2.0	0.00
Workshop Calculation Science				
42	42	<p>What is termed as the quantity of matter contained in a body? वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है?</p> <p>A1 : Density घनत्व</p> <p>A2 : Volume आयतन</p> <p>A3 : Mass द्रव्यमान</p> <p>A4 : Specific gravity विशिष्ट गुरुत्व</p>	2.0	0.00
Workshop Calculation Science				
43	43	<p>What is called mass per unit volume of a substances? किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं?</p>	2.0	0.00

		A1 Mass : द्रव्यमान A2 Weight : भार A3 Density : घनत्व A4 Volume : आयतन		
Workshop Calculation Science				
44	44	What is the ratio of power output to power input? शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है? A1 Work : कार्य A2 Energy : ऊर्जा A3 Efficiency : दक्षता A4 Acceleration : त्वरण	2.0	0.00
Engineering Drawing				
45	45	Identify the conventional symbol of material? सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें?  A1 Lead : लेड A2 Steel : इस्पात A3 Glass : कांच A4 Porcelain : चीनी मिट्टी	2.0	0.00
Engineering Drawing				
46	46	Identify the conventional symbol of material? सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें? 	2.0	0.00


		A1 Concrete : संगीत कार्यक्रम A2 Steel : इस्पात A3 Wood : लकड़ी A4 Glass : कांच		
Engineering Drawing				
47	47	Identify the conventional symbol of material? सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें? 	2.0	0.00
		A1 Steel : इस्पात A2 Wood : लकड़ी A3 Glass : कांच A4 Concrete : ठोस		
Engineering Drawing				
48	48	What is the trimmed size of A4 sheet? A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है? A1 841 x 1189 : 841 x 1189 A2 594 x 841 : 594 x 841 A3 210 x 297 : 210 x 297 A4 148 x 210 : 148 x 210	2.0	0.00
Engineering Drawing				
49	49	Which drawing dimension is correct as per IS standard? IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? A1 :	2.0	0.00




A2
:




A3
:



A4
:



Engineering Drawing

50	50	Identify the name of prism? चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है?	2.0	0.00
				
		A1 : Square prism स्क्वायर प्रिज्म		
		A2 : Pentagonal prism पंचकोणीय प्रिज्म		
		A3 : Triangular prism त्रिकोणीय प्रिज्म		
		A4 : Hexagonal prism हेक्सागोनल प्रिज्म		

Employability Skills			
51	51	<p>Fill in the blank with correct word. "They _____ good friends"</p> <p>रिक्त में सही शब्द भरें। "They _____ good friends"</p> <p>A1 : is</p> <p>is</p> <p>A2 : am</p> <p>am</p> <p>A3 : are</p> <p>are</p> <p>A4 : was</p> <p>was</p>	2.0 0.00
Employability Skills			
52	52	<p>Fill in the blank with present progressive tense of the verb. "The train _____ through the tunnel"</p> <p>क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। "The train _____ through the tunnel"</p> <p>A1 : passed</p> <p>passed</p> <p>A2 : is passing</p> <p>is passing</p> <p>A3 : had passed</p> <p>had passed</p> <p>A4 : was passing</p> <p>was passing</p>	2.0 0.00
Employability Skills			
53	53	<p>Fill in the blank with proper interrogative adjective. _____ are you going?</p> <p>उचित ईंटोरेगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। _____ are you going?</p> <p>A1 : Who</p> <p>Who</p> <p>A2 : Where</p> <p>Where</p> <p>A3 : Which</p> <p>Which</p> <p>A4 : What</p> <p>What</p>	2.0 0.00
Employability Skills			
54	54	<p>Fill in the blank with proper pronoun. "I made this cake _____"</p> <p>रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। "I made this cake _____"</p> <p>A1 : myself</p> <p>myself</p> <p>A2 : yourself</p> <p>yourself</p> <p>A3 : himself</p> <p>himself</p> <p>A4 : itself</p> <p>itself</p>	2.0 0.00
Employability Skills			
55	55	<p>Fill in the blank with proper pronoun. "She made this cake _____"</p> <p>रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। "She made this cake _____"</p>	2.0 0.00

		A1 : itself itself A2 : myself myself A3 : herself herself A4 : himself himself		
Employability Skills				
56	56	Fill in the blank with proper reflexive pronoun. "She has hurt _____" रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। "She has hurt _____" A1 : myself myself A2 : herself herself A3 : himself himself A4 : itself itself	2.0	0.00
Employability Skills				
57	57	Fill in the blank with suitable adjective for the given sentence "The little girl's..... eyes revealed her mischief" दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। "The little girl's..... eyes revealed her mischief" A1 : chubby chubby A2 : weak weak A3 : short sighted short sighted A4 : twinkling twinkling	2.0	0.00
Employability Skills				
58	58	Fill in the blank with suitable place preposition. "My house is _____ the third floor" उपयुक्त स्थान पूर्वसर्ग के साथ रिक्त स्थान भरें। "My house is _____ the third floor" A1 : at at A2 : in in A3 : on on A4 : under under	2.0	0.00
Employability Skills				
59	59	Fill in the correct question word. "_____ is the speaker at the function?" सही प्रश्न शब्द भरें। "_____ is the speaker at the function?" A1 : What What	2.0	0.00

		<p>A2 When : When</p> <p>A3 Why : Why</p> <p>A4 Who : Who</p>		
Employability Skills				
60	60	<p>Low level language is also called _____. निम्न स्तर की भाषा को _____ भी कहा जाता है</p> <p>A1 source code : सोर्स कोड</p> <p>A2 middle ware : मध्यस्थ</p> <p>A3 machine language : मशीन भाषा</p> <p>A4 assembly language : असेंबली भाषा</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
61	61	<p>Pronunciation refers to _____. उच्चारण _____ को संदर्भित करता है</p> <p>A1 diphthong : संयुक्त स्वर</p> <p>A2 consonant : व्यंजन</p> <p>A3 punctuation : विराम चिह्न</p> <p>A4 production of sound : ध्वनि का उत्पादन</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
62	62	<p>Re-arrange the following set of words into meaningful sentence. "teacher / school / worked / she / a / as". शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। "teacher / school / worked / she / a / as"</p> <p>A1 School worked as a she teacher : School worked as a she teacher</p> <p>A2 She worked as a school teacher : She worked as a school teacher</p> <p>A3 She teacher worked as a school : She teacher worked as a school</p> <p>A4 Worked she as a school teacher : Worked she as a school teacher</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
63	63	<p>Rise and fall of pitch of voice is called _____. आवाज की पिच का उठना और गिरना _____ कहलाता है</p> <p>A1 vowel : स्वर</p> <p>A2 intonation : आवाज़ का उतार-चढ़ाव</p>	2.0	0.00

		A3 : consonant व्यंजन A4 : pronunciation उच्चारण		
Employability Skills				
64	64	<p>The word that expresses a sudden and strong feeling is called _____.</p> <p>वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे _____ कहा जाता है</p> <p>A1 : punctuation विराम चिह्न</p> <p>A2 : interjection विस्मयादिबोधक</p> <p>A3 : conjunction संयोजन के रूप</p> <p>A4 : apostrophe एपोस्ट्रॉफी</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
65	65	<p>When you greet higher official's such as Teacher, Instructor or Supervisor, you should use _____.</p> <p>जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं, तो आपको _____ का उपयोग करना चाहिए</p> <p>A1 : Good morning Good morning</p> <p>A2 : Hello Hello</p> <p>A3 : Hey Hey</p> <p>A4 : Hi Hi</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
66	66	<p>Which is a silent letter in the word "ANSWER"?</p> <p>"ANSWER" शब्द में कौन सा मूक अक्षर है?</p> <p>A1 : R R</p> <p>A2 : E E</p> <p>A3 : S S</p> <p>A4 : W W</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
67	67	<p>Which one is a "Do's" of discussion etiquettes?</p> <p>चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन सा "Do's" है?</p> <p>A1 : Loose your temper अपना आपा खोएं</p> <p>A2 : Listen to others दूसरों की सुनें</p> <p>A3 : Talk about irrelevant details अप्रासंगिक विवरण के बारे में बात करें</p>	2.0	0.00

		<p>A4 : Use impolite or rude language</p> <p>अभद्र या अशिष्ट भाषा का उपयोग करें</p>		
Employability Skills				
68	68	<p>Which one is a “Don’t” of discussion etiquette? चर्चा शिष्टाचार का “Don’t” है?</p> <p>A1 : Be open minded दिमाग खुला रखना</p> <p>A2 : Use moderate tone मध्यम स्वर का प्रयोग करें</p> <p>A3 : Listen to others दूसरों की सुनें</p> <p>A4 : Argue unnecessary अनावश्यक बहस करें</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
69	69	<p>Which one is a brain of computer? कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है?</p> <p>A1 : Keyboard कीबोर्ड</p> <p>A2 : CPU सी पी यू</p> <p>A3 : Monitor मॉनिटर</p> <p>A4 : Hard disk हार्ड डिस्क</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
70	70	<p>Which one is an exclamatory sentence? कौन सा विस्मयादिबोधक वाक्य है?</p> <p>A1 : What a beautiful house it is! What a beautiful house it is!</p> <p>A2 : It is a beautiful house. It is a beautiful house.</p> <p>A3 : Is it a beautiful house? Is it a beautiful house?</p> <p>A4 : Your house is beautiful. Your house is beautiful.</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
71	71	<p>Which one is in active voice? सक्रिय आवाज में कौन सा है?</p> <p>A1 : Ram has passed the exam. Ram has passed the exam.</p> <p>A2 : The ball was caught by him. The ball was caught by him.</p> <p>A3 : The book was being read by her. The book was being read by her.</p> <p>A4 : We were driven home by dad. We were driven home by dad.</p>	2.0	0.00

Employability Skills				
72	72	<p>Which one is in passive voice? निष्क्रिय आवाज में कौन सा है?</p> <p>A1 : Mohan is painting a house. Mohan is painting a house.</p> <p>A2 : She was reading a book. She was reading a book.</p> <p>A3 : Her birthday was celebrated by us. Her birthday was celebrated by us.</p> <p>A4 : I have seen that movie. I have seen that movie.</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
73	73	<p>Which one is NOT a conjunction? कौन सा एक संयोजन नहीं है?</p> <p>A1 : And And</p> <p>A2 : Or Or</p> <p>A3 : But But</p> <p>A4 : On On</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
74	74	<p>Which one is NOT a benefit of the role playing? भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है?</p> <p>A1 : Builds confidence आत्मविश्वास पैदा करता है</p> <p>A2 : Develops listening skill सुनने का कौशल विकसित करता है</p> <p>A3 : Develops creative problem-solving skill रचनात्मक समस्या-समाधान कौशल विकसित करता है</p> <p>A4 : Develops boredom बोरियत पैदा करता है</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
75	75	<p>Which one is NOT a vowel? कौन सा स्वर नहीं है?</p> <p>A1 : a a</p> <p>A2 : e e</p> <p>A3 : f f</p> <p>A4 : i i</p>	2.0	0.00

Refrigeration and Air Conditioning Technician - 1st Year - Set 2

S.No.	Correct Answer Key
1	A1
2	A4
3	A2
4	A4
5	A1
6	A1
7	A3
8	A1
9	A4
10	A3
11	A3
12	A3
13	A4
14	A3
15	A3
16	A2
17	A2
18	A2
19	A1
20	A2
21	A1
22	A1
23	A1
24	A2
25	A3
26	A1
27	A2
28	A2
29	A4
30	A2
31	A1
32	A1
33	A4
34	A1
35	A4
36	A2
37	A4
38	A2

S.No.	Correct Answer Key
39	A4
40	A3
41	A3
42	A3
43	A3
44	A3
45	A2
46	A4
47	A4
48	A3
49	A1
50	A4
51	A3
52	A2
53	A2
54	A1
55	A3
56	A2
57	A4
58	A3
59	A4
60	A3
61	A4
62	A2
63	A2
64	A2
65	A1
66	A4
67	A2
68	A4
69	A2
70	A1
71	A1
72	A3
73	A4
74	A4
75	A3

Note:

"In case answers found to be inaccurate due to typographical error or any other reason please sent mail to qbnimigrievance@gmail.com"